



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6—जून 12, 2009 (ज्येष्ठ 16, 1931)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6—JUNE 12, 2009 (JYAISTHA 16, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2009

सं. आरएस.3/2/1/2009/21-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अनुसंधान सहायक श्रीमती विश्वरूपा भट्टाचार्य को 20 मई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600—39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

चित्रा जी., अधिशासी अधिकारी

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 2009

सं. ए-12011/6/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, डॉ. चन्द्र जीत को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में सहायक निदेशक के पद पर संविदा आधार

पर वेतन बैंड-3 के रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में दिनांक 18 मई, 2009 के पूर्वाह्न से, प्रारम्भ में 03 वर्ष की अवधि के लिए (01 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि सहित), जो आगे 02 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

अंतरिक्ष विभाग

बैंगलूर, दिनांक 30 अप्रैल 2009

सं. सी.10/2/1/2005-V(IV) (III)(Vol. III)--अं. वि. के दिनांक सितम्बर 5, 2005, जून 28, 2006 व अक्टूबर 22, 2007 के समसंख्यक अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में तथा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 5(1) के तहत अं. वि. के संबंध में निर्मांकित अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदित किया जाता है :--

क्रम	अधिकारी का नाम	पदनाम, पता, दूरभाष/फैक्स सं., विषय मामले
सं.		ई-मेल आई.डी.
1	2	3
1.	श्री एस. सतीश	निदेशक, पी व पी आर/ उप निदेशक डीओक्यूआर, इसरो मुख्यालय, अन्तरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बैंगलूर-560 231 दूरभाष : 080 - 23413802/22172370 फैक्स : 080 . 23511984 ई-मेल : satish@isro.gov.in

2. श्री एस. सतीश, सी पी आई ओ, के यात्रा, अवकाश इत्यादि पर जाने पर उनकी अनुपस्थिति में निम्नलिखित अधिकारी अं. वि. के वैकल्पिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी होंगे :--

क्रम	अधिकारी का नाम	पदनाम, पता, दूरभाष/फैक्स सं., विषय मामले
सं.		ई-मेल आई.डी.
1	2	3
1.	श्री एम. एस. चन्द्रशेखर	उप निदेशक, पी पी व पी एम सभी मामले इसरो मुख्यालय, अन्तरिक्ष भवन, नई बी ई एल रोड, बैंगलूर-560 231 दूरभाष : 080 - 23415458/22172393 फैक्स : 080 . 23412823 ई-मेल : msc@isro.gov.in

3. अं. वि. के निम्नांकित अधिकारियों को, प्रत्येक को उनके नाम के आगे उल्लिखित केन्द्र/यूनिटों के सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है :--

क्रम	अन्तरिक्ष विभाग के केन्द्र/यूनिट का नाम	नाम, पदनाम व पता, दूरभाष/फैक्स सं., ई-मेल आई.डी.
सं.		ए.पी.आई.ओ. का ई-मेल आई.डी.
1	2	3
1.	विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र इसरो पोस्ट, तिरुवनंतपुरम पिन-695 022	श्री वी. रवीन्द्रन प्रधान का. व सा.प्र. दूरभाष : 0471-2564827/2565686 फैक्स : 0471-2564827 ई-मेल : v-ravindran@vssc.gov.in इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट वट्टीयूरकावु पोस्ट तिरुवनंतपुरम पिन-695 022
2.	द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र विलियमला पोस्ट तिरुवनंतपुरम पिन-695 022	श्री बी. गोपी वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 0471-2567299/2567599 (का.) 0471-2417609 फैक्स : 0471-2567966 ई-मेल : v-gopi@lpsec.gov.in

1	2	3
	द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र 80 फीट रोड एचएएल-II, स्टेज एचपीओ बैंगलूर-560 008 द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र इसरो, अन्तरिक्ष विभाग महेन्द्रगिरी-627 133 तिरुनलवेली जिला तमिलनाडु	
3.	सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार, श्रीहरिकोट रेंज, पोस्ट-524 124, नेल्लूर जिला आन्ध्र प्रदेश	श्री सी. रवीन्द्रनाथ संपर्क व प्रकाशन अधिकारी व प्रधान, पुस्तकालय व प्रलेखन सुविधा दूरभाष : 08623-225183 फैक्स : 08623-225056 ई-मेल : library@shar.gov.in
4.	अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अंबावाडी विस्तार पोस्ट जोधपुर टेकरा अहमदाबाद-380 015	श्री जी. श्रीकृष्ण वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 079-26912021 फैक्स : 079-26915811 ई-मेल : sac7372@sac.dos.gov.in विकास व शैक्षिक संचार यूनिट अंबावाडी विस्तार पोस्ट जोधपुर टेकरा अहमदाबाद-380 015
5.	इसरो उपग्रह केन्द्र पो. बा. सं. 1795 एयरपोर्ट रोड विमानपुरा पोस्ट बैंगलूर-560 017	श्री के. मायवन वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 080-25084381 फैक्स : 080-25084103 ई-मेल : knayavan@isac.gov.in इलेक्ट्रो प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला, 1 फेज, 1 क्रास पीण्या इण्डस्ट्रियल एस्टेट बैंगलूर-560 058
6.	मुख्य नियंत्रण सुविधा अन्तरिक्ष विभाग पो. बा. सं. 66, सालगामे रोड हासन-573 201	श्री एस. एन. रामकृष्ण वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 08172-239020 फैक्स : 08172-239025 ई-मेल : snr_mcf@yahoo.com
7.	इसरो दूरमिति, अनुवर्तन व आदेश नेटवर्क केन्द्र, प्लॉट सं. 12 व 13, 3 मेडन, 2 फेस, पाण्या इण्डस्ट्रियल एस्टेट बैंगलूर-560 058	श्री पी. ए. जोसेफ वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 080-28094525/28376381(का.) 080-25225225 (आ.) फैक्स : 080-28094032 ई-मेल : joseph@istrac.gov.in
8.	अन्तरिक्ष विभाग सचिवालय इसरो मुख्यालय सिविल इंजीनियरी प्रभाग अन्तरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड बैंगलूर-560 231	श्री बी. आर. गुरुप्रसाद, पो.आर.ओ., पी व पी आर यूनिट, दूरभाष : 080-22172295 फैक्स : 080-23412253 ई-मेल : gurubr@isro.gov.in

1	2	3
9. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी बालानगर हैदराबाद-500 037	श्री एस. वी. कृष्ण राव वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 040-23884024 फैक्स : 040-23878648 ई-मेल : krishnarao_sv@nrta.gov.in	
10. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा अहमदाबाद-380 009	श्रीमती वी. लीला अय्यर सहायक प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 079-26314205 फैक्स : 079-26314900 ई-मेल : leela@prl.ernet.in	
11. राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, अन्तरिक्ष विभाग पो. बा. सं. 123 तिरुपति-517 502	श्री के. वी. लक्ष्मण कुमार प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 08585-272020/222450 फैक्स : 08585-272018/272021 ई-मेल : admin_narl@narl.gov.in	
12. उत्तर पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केंद्र, अन्तरिक्ष विभाग उमियाम-793 103 मेघालय	श्री बिजय कृष्ण हैंडिक्यू वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी. दूरभाष : 0364-2570137/2570769 फैक्स : 0364-2570139 ई-मेल : bkhandique@Rediffmail.com	
13. सेमी कण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, सेक्टर-72, एस.ए.एस. नगर-460 071 चंडीगढ़ के निकट, पंजाब	श्री मो. इक्रामुल्ला प्रधान, का. व प्रशा. दूरभाष : 0172-2237401 से 409 विस्तार : 407 फैक्स : 0172-2237410 ई-मेल : ikram@scelchd.co.in	
14. एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन अन्तरिक्ष भवन न्यू बी. ई. एल. रोड, बैंगलूर-560 231	श्री एम. एस. श्रीनिवास राव प्रधान, लेखा व आं. वि. सला. दूरभाष : 080-22172186 फैक्स : 080-23418981 ई-मेल : msrao@isro.gov.in	
15. भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिक संस्थान, इसरो पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम-695 022	श्रीमती के. आर. बिन्दिया प्रशासन अधिकारी दूरभाष : 0471-2564808 फैक्स : 0471-2564806 ई-मेल : ao@iist.ac.in	

एस. के. झा, निदेशक

बैंगलूर-560 231, दिनांक 19 मई 2009

सं. 2/1/7/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग में संयुक्त सचिव (वित्त), डॉ. ई. वी. रमण रेड्डी, भा. प्रशा. से. (कनाटक : 88) की सेवाएँ आगामी आदेश तक 18.05.2009 से तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2009

सं. ए-19016/286/2006-प्रशा.-III--राष्ट्रपति ने सुश्री गुंजन वेद, बाहरी व्यक्ति जो सदस्य (डॉ. सईदा हमीद), योजना आयोग के व्यक्तिगत स्टाफ में सह-सत्रावसानी आधार पर विशेष इयूटी अधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्यरत हैं, का त्यागपत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

बनारसी राम, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 मई 2009

सं. 181/2/2008/402--भारत के राष्ट्रपति, श्री एस. आर. कार को दिनांक 17 मार्च, 2009 से भारत निर्वाचन आयोग में ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के साथ, वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सीता राम, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2009

सं. ए-32014/02/2004-प्रशा.-IV (वि. का.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 जनवरी, 2009 के का. झा. सं. 5/25/2004-सीएस-I (एस.) के अनुसार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की श्रीमती वीना अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी (चयन सूची-2004) को वरिष्ठता कोटे से वर्ष 2003 की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 मई, 2009 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 मई 2009

सं. के.-13016/6/2008-यू. एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री अजित भारिहोक, (ii) श्री विनय कुमार जैन, (iii) श्रीमती इन्दरमीत कौर कोछड़ और (iv) श्री अनिल कुमार पाठक को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धुपिन्दर प्रसाद, अपर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 मई 2009

सं. के. 13011/1/2009-यू. एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री दीपक वर्मा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13011/1/2009-यू. एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् डॉ. श्री बलवीर सिंह चौहान को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 मई 2009

सं. के. 13017/1/2009-यू. एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री सिद्धार्थ मृदुल को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13019/1/2009-यू. एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री जनकराय चंदभाई उपाध्याय को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 मई 2009

सं. के. 11019/2/2009-यू. एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री जैकब बेन्जामिन कोशि के सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री शिवा कीर्ति सिंह को दिनांक 13 मई, 2009 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

दिनांक 15 मई 2009

सं. के. 13015/1/2008-यू. एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायविद् श्री इन्द्र प्रसन्न मुखार्जी को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार

ग्रहण करेंगे, से कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 मई 2009

सं. के. 13019/1/2009-यू. एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री कार्तिकेय मधुसुदन ठाकर, (ii) न्यायविद् श्री झहिरुद्दीन खैरुद्दीन सैयद और (iii) न्यायविद् श्रीराजेश हरिवदन शुक्ल को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2009

सं. 1-11014/3/2007-आईपीएस-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (सर्वग) नियम, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ और बिहार सरकारों की सहमति से, सुश्री एस. प्रेमलता, भारतीय पुलिस सेवा (छत्तीसगढ़ : 2006) का विवाह श्री पी. कन्नन, भारतीय पुलिस सेवा (बिहार : 2005) के साथ हो जाने के आधार पर, उन्हें छत्तीसगढ़ से बिहार के आई पी एस संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी
(आई पी एस-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2009

सं. ए-12025/1/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री बी. के. तिवारी, उप निदेशक, ए.जी./डी.बी., रक्षा मंत्रालय को पी.बी.-3, 15,600—39,100/- रुपए + जी.पी. 6,600/- रुपए में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन केंद्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड से सचिव के रूप में 01 जनवरी, 2009 की पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय : प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2009

सं. डी-III/460/सीएफ-51/2008--भारत की राष्ट्रपति ने डॉ. राजेश जे. ऐरेन को नई दिल्ली में समोआ के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

डॉ. राजेश जे. ऐरेन के कौंसली क्षेत्राधिकार में सम्पूर्ण भारत होगा।

एच. आर. सिंह., प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2009

सं. ए-12011/1/2009-प्रशा.-2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 14.08.2008 और दिनांक 31.12.2008 के का. ज्ञा. सं.-7/5/2008 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सहायक श्रीमती सतीश्वरी कौर को 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300—34,800/- रु. के पीबी-2 के वेतन बैंड में तदर्थ आधार पर 05.05.2009 से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त सहायक की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नोक्त शर्तों के अधीन होगी :

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, इससे उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने का या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोट या सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2009

सं. ए-32015/1/2004-आ.स. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के श्री आशीष बनर्जी, को दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 31 मई, 2009 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो, के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर की गई है, जिसके लिए श्री आशीष बनर्जी को इस पद पर बने रहने या इस ग्रेड में वरीयता मांगने या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार श्री बनर्जी की तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना या सूचना आदि दिए बिना ही समाप्त कर सकती है।

रंजन मुखर्जी, उप निदेशक (प्रशासन)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2009

सं. ए-42011/22/2006-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 21/27/2006-सीएस-I(डी), दिनांक 22 फरवरी, 2008

तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय आदेश संख्या ए-12025/01/08-प्रशासन-I(ए), दिनांक 5 मई, 2009 के अनुसरण में श्री राकेश भारतीय, निदेशक को दिनांक 06.05.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय की नामावली में शामिल कर लिया गया है।

ज्योति माधुर, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 21 मई 2009

सं. ए-19012/1/2009-एस्टे--राष्ट्रपति, श्री के. जयकुमार, आई ए एस (एसके : 87) को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 20 मई, 2009 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड (पीबी-4) 37,400—67,000/- रुपये + 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के कालड़ा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मई 2009

सं. पृविमं./11/16/2008-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.01.2009 के का. ज्ञा. सं. 04/09/2008-सी.एस.-I(डी) के अनुसरण में श्री टी. आर. गिल, उप सचिव का नाम सी.एस.एस. चयन सूची 2006 के चयन ग्रेड (उप सचिव) में शामिल किए जाने पर, उन्हें 01 जुलाई 2006 से पे बैंड-3 में 7,600/- रु. की ग्रेड पे के अनुरूप 15,600—39,100/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संदेश सक्सेना, अवर सचिव

सं. पृविमं./18/09/2008-स्था.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक 'एफ' (16,400-450-20,000/- रु.) (संशोधन पूर्व) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से और अगले आदेशों तक सुनम्य पूरक योजना (एफ. सी.एस.) के अंतर्गत स्व-स्थाने आधार पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ए' पद के वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड (18,400-500-22,400/- रु.) (संशोधन पूर्व) में पदोन्नत करते हैं :

नाम	पदोन्नति की तारीख
डॉ. ई. एन. राजगोपाल	16.05.2009

संदेश सक्सेना, अवर सचिव

सं. पृविमं./11/9/2008-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.01.2009 के का. ज्ञा. सं. 04/09/2008 सी.एस.-I(डी) के अनुसरण में श्री भगवान सिंह, उप सचिव का नाम सी.एस.एस. चयन सूची 2006 के चयन ग्रेड (उप सचिव) में शामिल किए जाने पर, उन्हें

01 जुलाई, 2006 से पे-बैंड-3 में 7,600/- रु. की ग्रेड पे के अनुरूप 15,600—39,100/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संदेश सक्सेना, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2009

सं. 19011/6/2009-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा, पंजाब संवर्ग की 2001 बैच की अधिकारी सुश्री एम. गीतांजलि को 15 दिसम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से 4 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण, दक्षिण जोन, बंगलौर में उपनिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर, अवर सचिव

सं. 19011/7/2009-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा, झारखंड संवर्ग की 1991 बैच की अधिकारी सुश्री शैलजा सिंह को 25 फरवरी, 2009 की पूर्वाह्न से 4 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2009

सं. ए-12025/22/2005-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संजय कुमार साधूखान को दिनांक 01 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में जन स्वास्थ्य की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2009

सं. ए-12025/31/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पवन लाल को दिनांक 20 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/31/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. चन्द्र भूषण सिंह को दिनांक 20 नवम्बर, 2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/46/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. धन श्याम पंगते को दिनांक 02 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में कार्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2009

सं. ए-12025/118/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संगीता कुमारी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- (पूर्व-संशोधित) रूप के वेतनमान में दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. संगीता कुमारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. संगीता कुमारी दो वर्ष तक परीवीक्षा पर रहेंगी।

श्रीमती भाया प्रकाश, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2009

सं. ए-12022/2/2004-स्था.--राष्ट्रपति जी, डॉ. (सुश्री) रश्मि शुक्ल शर्मा, भा.प्र.से. (म.प. : 84) को पंचायती राज मंत्रालय में 15 मई, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 37,400--67,000/- रूप (पे बैंड-4) के पे बैंड जमा 10,000 रु. के ग्रेड पे में संयुक्त सचिव नियुक्त करती हैं।

एल. हौकिप, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 अप्रैल 2009

सं. 36-13/2007-ए.ई.-6--विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री एस. के. बहल, सहायक निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली को भारत की राष्ट्रपति प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली में 10,000-325-15,200/- रूप के वेतनमान में अगले आदेशों तक के लिए तत्काल प्रभाव से उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. ओहरी, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2009

सं. 1-1/2009-ए.एस.आई./ए.एस.--नियुक्ति संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति की सिफारिशों [कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 फरवरी, 2009 के आदेश सं. 4/43/2008-ईओ (एसएम-1) के संदर्भ में] के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री प्रवीण श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (एमटी : 80) को वेतन बैंड 37,400--67,000/- रूप (पीबी-4) तथा ग्रेड वेतन 10,000/- रूप में संयुक्त सचिव के पद तथा वेतन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में अपर महानिदेशक के पद पर 01 मई 2009 (पूर्वाह्न) या उक्त

पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

बी. एल. मीना, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 मई 2009

सं. 4(751)/2007-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी, ने 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपये के वेतन-बैंड-3 में वैज्ञानिक 'बी', सुश्री गोवरीमोल डी. (कर्मचारी कोड सं. 954) का त्यागपत्र दिनांक 30.04.2009 से स्वीकार कर लिया है।

2. उन्हें दिनांक 30.04.2009 को अपराह्न से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 2(2)/2007-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने श्री एम. के. जैन, सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 4,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन ढांचे में दिनांक 06.05.2009 के पूर्वाह्न से अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त के आधार पर अनुभाग अधिकारी (अग्नि) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 18 मई 2009

सं. 5(3)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी, ने श्री अनिल सागर (कर्मचारी कोड : 247) का दिनांक 18.05.2009 के अपराह्न से 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,000--67,000/- रुपये के वेतन बैंड-4 में वैज्ञानिक 'ई' के पद से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ताकि वे इस विभाग में भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर कार्यभार ग्रहण कर सकें।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 5(3)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी, ने श्री समावेदम सत्यानन्द सरमा (कर्मचारी कोड : 847) का दिनांक 18.05.2009 के अपराह्न से 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'डी' के पद से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ताकि वे इस विभाग में भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) में वैज्ञानिक 'ई' के पद पर कार्यभार ग्रहण कर सकें।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मई 2009

सं. पीएफ/1668/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री गुंजन नाथ, कर्मचारी कोड सं. 1668 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक

25 अक्टूबर, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मई 2009

सं. 5412/एनआईसी/2009-प्रशा.-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री नितिन बी. पाठक, (कर्मचारी कोड सं. 5412) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, जिला केन्द्र, देवास, मध्य प्रदेश से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर गेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 01 नवम्बर, 2008 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशा.-II)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2009

सं. ई. आर. बी.-I/2007/10/4--श्रीमती कृष्णा शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड 04 मई, 2009 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई. आर. बी.-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी 30 अप्रैल 2009 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| (1) श्री ए. के. डोगरा | -- | वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव |
| (2) श्री के. एल. ग्रोवर | -- | प्रमुख निजी सचिव |
| (3) श्री टी. सी. गुरनानी | -- | प्रमुख निजी सचिव |
| (4) श्री एस. आर. मल्होत्रा | -- | निजी सचिव |
| (5) श्री आर. एन. श्रीवास्तव | -- | अनुभाग अधिकारी |

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2009

सं. ए-19011/1/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री राकेश मल्होत्रा, अवर सचिव (सीएसएल-4037) को वर्ष 2007 की चयन श्रेणी में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/1/2009-सीएस 1(डी) दिनांक 08 मई, 2009 द्वारा सम्मिलित होने पर पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव (चयन ग्रेड केंद्रीय सचिवालय सेवाएं) के रूप में दिनांक 12 मई, 2009 से पे-बैंड 3: रुपये 15,600--39,100+ ग्रेड पे रुपये 7,600 के वेतनमान में, उप सचिव (सी. एस. एस. की चयन श्रेणी) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2009

सं. ए-12025/2/2005-ई. 2--राष्ट्रपति, श्री घनश्याम कुमार को, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली, में दिनांक 18 मई 2009 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 15,600--39,100+ग्रेड वेतन रु. 5,400/-के वेतनमान में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2009

सं. 15/2009, फाईल सं.-3/6/2006-स्था.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा के निम्नलिखित ज्येष्ठ काल वेतनमान अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गयी तारीख से नियमित रूप से पदोन्नति पर, उसी सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में, रुपये 14,300--18,300 (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
1	2	3
	(सर्व/श्री)	
1.	डी. रंगा रेड्डी	04.01.2008 (पूर्वाह्न)
2.	सैबल घोष	23.01.2008 (पूर्वाह्न)
3.	अम्ब्रोष नायक	10.01.2008 (पूर्वाह्न)
4.	मुन्नी लाल	28.12.2007 (पूर्वाह्न)
5.	जोगिन्द्र सिंह	31.01.2008 (पूर्वाह्न)
6.	ए. के. प्रधान	27.12.2007 (अपराह्न)
7.	अनुपम प्रसाद	27.12.2007 (अपराह्न)
8.	बी. बी. हलदर	30.12.2007 (अपराह्न)
9.	पी. एस. कुटियाल	28.12.2007 (पूर्वाह्न)
10.	एल. के. तनेजा	27.12.2007 (अपराह्न)
11.	आर. एल. दत्ता	27.12.2007 (पूर्वाह्न)
12.	योगेश पेथन्कर	31.12.2007 (पूर्वाह्न)
13.	एन. के. राय	28.12.2007 (पूर्वाह्न)
14.	आदित्य शर्मा	28.12.2007 (पूर्वाह्न)
15.	के. के. राजन	04.01.2008 (पूर्वाह्न)
16.	सुशील कुमार	28.12.2007 (पूर्वाह्न)
17.	बी. पी. पान्डे	03.09.2008 (पूर्वाह्न)
18.	नीरज कुमार	23.06.2008 (पूर्वाह्न)
19.	डी. के. तिवारी	31.01.2008 (पूर्वाह्न)
20.	रविन्द्र सिंह	28.12.2007 (पूर्वाह्न)
21.	जी. के. अग्रवाल	04.01.2008 (पूर्वाह्न)
22.	विजय सरन	27.12.2007 (अपराह्न)
23.	बी. के. कारजी	13.02.2008 (पूर्वाह्न)
24.	शेर सिंह	21.01.2008 (पूर्वाह्न)
25.	दिनेश वर्मा	28.12.2007 (अपराह्न)
26.	रीडिंग शिमेरे	27.12.2007 (पूर्वाह्न)

2. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उक्त अधिकारियों की पदोन्नति निम्नलिखित रिट याचिका और मूल आवेदनों पर अन्तिम आदेशों के आधीन है:-

- (1) श्री एल. पी. सिंह तथा अन्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय में 2006 में दायर की गई रिट याचिका।
- (2) श्री रविन्द्र सिंह द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, राहमदाबाद खंडपीठ में दायर मूल आवेदन सं. 588/2006।

के. राजप्पा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2009

सं. ए-32013/3/2008-न. ग्रा. नि. सं./प्रशा.-III/यू. डी.-II--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से श्री एम. एल. चुटानी, नगर एवं ग्राम नियोजक जो कि तदर्थ आधार पर अपर मुख्य नियोजक के पद पर कार्यरत थे उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक अपर मुख्य नियोजक के पद पर वेतन बैंड-4 में 37,400--67,000+ग्रेड वेतन 8,700/- रु. (संशोधन-पूर्व वेतनमान 14,300-400-18,300 रु.) पर नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में नियुक्त किया जाता है।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

दिनांक 21 मई 2009

सं. ए-32013/3/2008-टी. सी. पी. ओ./प्रशा.-III/यू. डी.-II--पदोन्नति के उपरान्त राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती नीलिमा वर्मा, अनुसंधान अधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. (संशोधन-पूर्व वेतनमान 10,000-325-15,200 रु.) पर नियुक्त किया जाता है।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

सं. ए-31013/2/2009-न. ग्रा. नि. सं./प्रशा.-III/यू. डी.-II--राष्ट्रपति, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन में श्री ए. पी. जैकब मनोहर, सह नगर एवं ग्राम नियोजक को सह नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर दिनांक 28 जून 2008 से मूल रूप से नियुक्त करते हैं।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2009

सं. ए-12025/06/2006-आई. एस. एच.-II:-राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष दर्शायी गयी तारीख से और अगले आदेशों तक खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में 12,000-375-16,500/-रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में खान सुरक्षा उप-निदेशक (इलैक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	खान सुरक्षा उप-निदेशक (इलैक्ट्रिकल) के ग्रेड में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अजय सिंह	26.02.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री थाम्मीसेट्टी श्रीनिवास	30.03.2009 (पूर्वाह्न)

सुभाष चन्द, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 20th May 2009

No RS.3/2/1/2009/21-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Vishwarupa Bhattacharya, Research Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Research Officer in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus GP of Rs. 5,400/- on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 20th May, 2009 until further orders.

CHITRA G, Executive Officer

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 20th May 2009

No. A-12011/6/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Chandra Jeet as Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the National Security Council Secretariat, on contract basis with effect from the forenoon of 18th May 2009, initially for a tenure of three years (including one year probation) extendable by a further period of two years, or until further orders whichever is earlier.

P. K. ROY, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 30th April 2009

No. 10/2/1/2005-V (IV) (III) (Vol.III)—In supersession of Department of Space Notification of even number dated September 05, 2005, June 28, 2006 and October 22, 2007 and in terms of Section 5(1) of the Right To Information Act, 2005, the following Officer of the Department of Space is hereby designated as the Central Public Information Officer in respect of the Department of Space :—

Sl. No. of the Officer	Name of the Officer	Designation, address, Telephone/Fax No. E-mail ID	Subject matter
1.	Shri S. Satish	Director, P&PR/Dy. Director, DOQR, ISRO Headquarters, Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560231 Tel.: 080-23413802/22172370 Fax : 080-23511984 E-mail : satish@isro.gov.in	All matters

2. The following Officer shall be the Alternate Central Public Information Officer for the Department of Space in the absence of Shri S. Satish, CPIO, on tour, leave, etc. :

Sl. No. of the Officer	Name of the Officer	Designation, address, Telephone/Fax No. E-mail ID	Subject matters
1.	Shri M. S. Chandrashekara	Dy. Director, PP&PM ISRO Headquarters, Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560231 Tel.: 080-23415458/22172393 Fax : 080-23412823 E-mail : msc@isro.gov.in	All matter

3. The following Officers of the Department of Space are designated as the Assistant Public Information Officer in respect of the Centres/Units mentioned against each :

Sl. No. of the Department	Name & Address of the Officer	Name, Designation & Address, Telephone/Fax No. E-mail ID of the APIO
1.	Vikram Sarabhai Space Centre, ISRO P. O. Thiruvananthapuram Pin-695022	Shri V. Ravindran, Head, P&GA, Tel. No.:0471-2564827/2565686, Fax No.:0471-2564827 E-mail : v_ravindran@vssc.gov.in
	ISRO Inertial Systems Unit Vattiyoorkavu P.O. Thiruvananthapuram Pin-695022	
2.	Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala P.O. Thiruvananthapuram Pin-695022	Shri V. Gopi Sr. Administrative Officer Tel.:0471-2567299/2567599(O) 0471-2417609 Fax:0471-2567966 E-mail : v_gopi@lpssc.gov.in
	Liquid Propulsion Systems Centre, 80ft. Road HAL Hind Stage HPO Bangalore-560008	
	Liquid Propulsion Systems Centre, ISRO, Department of Space Mahendragiri-627133 Tirunelveli District, Tamil Nadu	
3.	Satish Dhawan Space Centre, SHAR Sriharikota Range P.O-524124 Nellore District Andhra Pradesh	Shri C. Ravindranath Publicity & Publication Officer & Head, Library & Documentation Facility Tel.:08623-225183 Fax:08623-225056 E-mail : library@shar.gov.in
4.	Space Application Centre Ambawadi Vistar P.O. Jodhpur Tekra Ahmedabad-380015	Shri V. Sreekumar, Sr. Administrative Officer, Tel.:079-26912021 Fax:079-26915811 E-mail : sac7372@sac.dos.gov.in
	Developmental and Educational Communication Unit, Ambawadi Vistar P.O. Jodhpur Tekra, Ahmedabad-380015	
5.	ISRO Satellite Centre P.B.No.1795, Airport Road Vimanapura Post Bangalore-560017	Shri K. Mayavan Sr. Administrative Officer Tel.:080-25084381 Fax:080-25084103 E-mail : kmayavan@isac.gov.in
	Laboratory for Electro-Optics Systems, I Phase, 1 Cross, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058	
6.	Master Control Facility Department of Space P.B.No.66, Salagame Road Hassan-573201	Shri S. N. Ramakrishna Sr. Administrative Officer Tel.:08172-239020 Fax:08172-239025 E-mail : snr_mcf@yahoo.com

1	2	3
7.	ISRO Telemetry Tracking and Command, Network Station, Plot No. 12 & 13, 3rd Main, 2nd Phase, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058	Shri P. A. Joseph Sr. Administrative Officer Tel.:080-28094525/28276281 (x) 080-25225225 (R) Fax:080-28094032 E-mail:joseph@istrac.gov.in
8.	Dept of Space Secretariat ISRO Headquarters Civil Engineering Division Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560231	Shri B. R. Guruprasad, PRO, P&PR Unit, Tel.:080-22172295 Fax:080-23412253 E-mail:gurubr@isro.gov.in
9.	National Remote Sensing Centre, Balanagar, Hyderabad-500037	Shri S. V. Krishna Rao Sr. Administrative Officer Tel.:040-23884024 Fax:040-23878648 E-mail:krishnarao_sv@nrsa.gov.in
10.	Physical Research Laboratory, Navrangpura Ahmedabad-380009	Ms. V. Leela Iyer Assistant Administrative Officer Tel.:079-26314205 Fax:079-26314900 E-mail:leela@prl.ernet.in
11.	National Atmospheric Research Laboratory, Department of Space Post Box No. 123 Tirupati-517502	Shri K. V. Lakshmana Kumar, Administrative Officer Tel.:08585-272020/222450 Fax:08585-272018/272021 E-mail:admin-narl@narl.gov.in
12.	North Eastern Space Applications Centre, Department of Space Umiam-793103 Meghalaya	Shri Bijoy Krishna Handique Scientist/Engineer 'SD' Tel.:0364-2570137/2570769 Fax:0364-2570139 E-mail:bkhandique@rediffmail.com
13.	Semi Conductor Laboratory, Sector-72, SAS Nagar-460071, Near Chandigarh Punjab	Shri Md. Ikramulla Head, P&GA Tel.:0172-2237401 to 409 Extn:407 Fax:0172-2237410 E-mail:ikram@selchd.co.in
14.	ANTRIX Corporation Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560231	Shri M. S. Srinivasa Rao Head, Accounts & IFA Tel.:080-22172186 Fax:080-23418981 E-mail:msrao@isro.gov.in
15.	Indian Institute of Space Science & Technology, ISRO P.O., Thiruvananthapuram Pin-695022	Smt. K. R. Bindya, Administrative Officer, Tel.:0471-2564808 Fax:0471-2564806 E-mail:ao@iist.ac.in

S. K. JHA, Director

Bangalore-560231, the 19th May 2009

No. 2/1/7/2003-I—The President is pleased to extend the services of Dr. E. V. Ramana Reddy, IAS (KN:88) as Joint Secretary (Finance) in the Department of Space for a period of 3 months beyond 18-05-2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 21st April 2009

No. A-19016/286/2006-Adm.III—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Gunjan Veda, an outsider who is working on co-terminus basis as Officer on Special Duty (OSD) in the personal staff of Member (Dr. Syeda Hameed), Planning Commission w.e.f. 21-04-2009 (AN).

BANARSI RAM, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 21st May 2009

No. 181/2/2008/402—The President of India is pleased to appoint Shri S. R. Kar as Under Secretary in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Election Commission of India with effect from 17th March, 2009.

SITA RAM, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 15th May 2009

No. A-32014/02/2004-Admn.IV(LA)—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M.No.5/25/2004-CS.I(S) dated 12th January, 2009 the President is pleased to appoint Smt. Veena Arora, Section Officer (Select List-2004) in the CSS Cadre of Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) as Section Officer on her inclusion in the Select List of the Year 2003 against the Seniority Quota with effect from the forenoon of 1st May, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 8th May 2009

No. K. 13016/6/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Ajit Bharihoke (ii) Shri Vinay Kumar Jain, (iii) Smt. Indermeet Kaur Kochhar and (iv) Shri Anil kumar Pathak as Additional Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Ms. BHUPINDER PRASAD, Additional Secy.

New Delhi-110011, the 8th May 2009

No. K. 13011-1/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Deepak

Verma, Chief Justice, Rajasthan High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13011/1/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Dr. Justice Balbir Singh Chauhan, Chief Justice, Orissa High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 20th May 2009

No. K. 13017/1/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Siddharth Mridul, Additional Judges of the Delhi High Court to be a Judge of the Delhi High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13019/1/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Janakray Chandubhai Upadhyaya, Additional Judge of the Gujarat High Court, to be a Judge of the Gujarat High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 12th May 2009

No. K. 11019/2/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Shiva Kirti Singh, Seniormost Judge of the Patna High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 13-05-2009 consequent upon the retirement of Justice Shri Jacob Benjamin Koshy, Chief Justice of the Patna High Court.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

The 15th May 2009

No. K. 13015/1/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Indra Prasanna Mukerji to be a Judge of the Calcutta High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 15th May 2009

No. K. 13019/1/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Shri Kartikeya Madhusudan Thaker, (ii) Justice Zahiruddin Khairuddin Saiyed and, (iii) Justice Shri Rajesh Harivadan Shukla, Additional Judges, to be Judges of the Gujarat High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

V. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th May 2009

No. I-11014/3/2007-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Chhattisgarh and Bihar, the Central Government hereby transfers Ms. S. Premalatha, IPS (CG : 2006), from Chhattisgarh to the IPS cadre of Bihar on the ground of her marriage with Shri P. Kannan, IPS (BH : 2005).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 21st May 2009

No. A.12025/1/2005-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri V. K. Tewari, Deputy Director, AG/DV, Ministry of Defence as Secretary, Central Civil Services Cultural & Sports Board (CCSCSB) under the Department of Personnel & Training, in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis, with effect from the forenoon of 1st January, 2009 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

HARISH CHANDER, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 11th May 2009

No.D-III/460/CF-51/2008—The President is pleased to recognise the appointment of Dr. Rajesh J. Aeren as Honorary Consul of Samoa in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Dr. Rajesh J. Aeren comprises the whole of India.

H. R. SINGH, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 13th May 2009

No. A-12011/1/2009-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 7/5/2008-CS.I, dated 14-08-2008 and dated 31-12-2008 of

Department of personnel & Training, the President is pleased to appoint Smt. Satinder Jit Kaur, Assistant of CSS of Finance Cadre, as Section Officer on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 05-05-2009 and until further orders :—

2. The ad-hoc appointment of the above Assistant as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad-hoc appointment, being a stopgap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS.
- (ii) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty.

V. RAM KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 14th May 2009

No. A-32015/1/2004/Ec.Ad.(Admn.I).—The President is pleased to appoint Shri Ashish Banerjee, Junior Investigator of the Office of the Economic Adviser as Economic Officer in this office on ad-hoc basis for the period from 01-12-2008 to 31-05-2009 or till further orders whichever is earlier.

The appointment, ordered above, is made on purely ad-hoc basis and does not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority, etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

RANJAN MUKHERJEE, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 14th May 2009

No. A-42011/22/2006-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/27/2006-CS.I(D) dated 22nd February, 2008 and Department of Science and Technology's Office Order No. A-12025/01/08-Admn.I(A) dated 5th May, 2009 Shri Rakesh Bhartiya.

Director is taken on the strength of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises w.e.f. 06-05-2009 (FN) and until further orders.

JYOTI MATHUR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
RESEARCH)

New Delhi-110016, the 21st May 2009

No. A-19012/1/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. K. Jayakumar, IAS (SK : 87) as Joint Secretary in the Department of Scientific and Industrial Research in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 20th May 2009 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 21st May 2009

No. MoES/11/16/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D), dated 30th January, 2009 on inclusion of the name in the Selection Grade (Dy. Secretary) of CSS Select List 2006, Sh. T. R. Gill, Deputy Secretary is appointed on regular basis w.e.f. 1st July of 2006 in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- corresponding Grade Pay of Rs. 7,600/-.

SANDESH SAXENA, Under Secy.

No. MoES/18/09/2008-Estt.—The President is pleased to promote the following Scientist 'F' (Rs. 16,400-450-20,000/-) (Pre-revised) to the grade of Scientist 'G' (Rs. 18,400-500-22,400/-) (Pre-revised) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis under the Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from date mentioned against him and until further orders :—

Name	with effect from
Dr. E. N. Rajagopal	16-05-2009

SANDESH SAXENA, Under Secy.

No. MoES/11/9/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D), dated 30th January, 2009 on inclusion of the name in the Selection Grade (Dy. Secretary) of CSS Select List 2006, Sh. Bhagwan Singh, Deputy Secretary is appointed on regular basis w.e.f. 1st July of 2006 in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- corresponding Grade Pay of Rs. 7,600/-.

SANDESH SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 22nd April 2009

No. A.19011/6/2009-IFS.I—The President is pleased to appoint Ms. M. Geethanjali, an officer belonging to 2001 batch of Indian Forest Service, Punjab Cadre, to the post of Deputy Director, Forest Survey of India, Southern Zone, Bangalore on central deputation w.e.f. the forenoon of 15th December, 2008 for a period of four years or until further orders whichever is earlier.

KAMAL KISHORE, Under Secy.

No. A.19011/7/2009-IFS.I—The President is pleased to appoint Ms. Shailaja Singh, an officer belonging to 1991 batch of Indian Forest Service, Jharkhand Cadre, to the post of Deputy Conservator of Forests (Central) Regional Office, Ministry of Environment and Forests, Lucknow on central deputation w.e.f. the forenoon of 25th February, 2009 for a period of four years or until further orders whichever is earlier.

KAMAL KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th May 2009

No. A.12025/22/2005-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjoy Kumar Sadhukhan to the post of Assistant Professor in the speciality of Public Health in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 1st May, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 19th May 2009

No. A.12025/31/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pawan Lal to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 20-08-2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A.12025/31/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Chandra Bhushan Singh to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the afternoon of 20-11-2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A.12025/46/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ghan Shyam Pangtey to the post of Assistant Professor in the speciality of Medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 02-08-2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110008, the 19th May 2009

No. A.12025/118/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sangita Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of 05-12-2007 until further orders. Dr. Sangita Kumari is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Sangita Kumari shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 18th May 2009

No. A.12022/2/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Rashmi Shukla Sharma, IAS (MP : 84), as Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Panchayati Raj for a period of five years with effect from the forenoon of 15th May, 2009 and until further orders.

L. HAOKIP, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION &
LITERACY)**

New Delhi, the 9th April 2009

No. 36-13/2007-A.E.6—Consequent upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee (DPC), the President of India is pleased to appoint Shri S. K. Wahal, Assistant Director, Directorate of Adult Education, Jam Nagar House, New Delhi as Deputy Director in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate of Adult Education, New Delhi with immediate effect till further orders.

S. K. OHRI, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 6th May 2009

No. 1-1/2009/ASI/AS—On the recommendations of the Appointments Committee of the Cabinet [Department of Personnel & Training with reference to their Order No. 4/43/2008-EO(SM.I) dated 18th February 2009], the President

is pleased to appoint Shri Pravin Srivastava, IAS (MT : 80) to the post of Additional Director General, in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture in the rank and pay of Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years from date of his assumption of the charge of the said post, w.e.f. 1st May, 2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 12th May 2009

No. 4(751)/2007-Pers.I—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Gowrimol D., (E. Code-954) from the post of Scientist 'B' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. 30-04-2009.

2. She stands relieved from 30-04-2009 (AN).

GRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 2(2)/2007-P.I—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri M. K. Jain, Assistant, DIT as Section Officer (Fire) in the Department of Information Technology in the structure of pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- on deputation basis for a period of one year with effect from the forenoon of 06-05-2009 or until further orders, whichever is earlier.

GRISH SAHAI, Dy. Dir.

The 18th May 2009

No. 5(3)/2009-Pers.I—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Anil Sagar, (E.Code-247) from the post of Scientist 'E' in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from afternoon of 18-05-2009 to enable him to take up appointment to the post of Scientist 'F' in Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), in this Department.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 5(3)/2009-Pers.I—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Samavedam Satyanadha Sarma, (E.Code-847) from the post of Scientist 'D' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from afternoon of 18-05-2009 to enable him to take up appointment to the post of Scientist 'E' in Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), in this Department.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 21st May 2009

No. PF/1668/NIC/2009-Adm.-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Gunjan Nath, Emp. Code-1668, from the post of Scientist "C", NIC-HQ, New Delhi with effect from the afternoon of 25-10-1996 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.-I)

New Delhi-110 003, the 18th May 2009

No. 5412/NIC/2009-Adm-II—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Sh. Nitin B Pathak (Emp. Code No. 5412), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre, District Centre, Dewas, Madhya Pradesh, with effect from the afternoon of 1st November, 2008 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110 001, the 25th May 2009

No. ERB-I/2007/10/4—Smt. Krishna Sharma, Joint Director (Official Language), Railway Board retired voluntarily from service w.e.f. 04-05-2009 (FN).

K. B. L. MITTAL, Secy.
(RAILWAY BOARD)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30-04-2009:—

- | | | |
|-------|----------------------|---------------------------------|
| (i) | Shri A. K. Dogra | Sr. Principal Private Secretary |
| (ii) | Shri K. L. Grover | Principal Private Secretary |
| (iii) | Shri T. C. Gurnani | Principal Private Secretary |
| (iv) | Shri S. R. Malhotra | Private Secretary |
| (v) | Shri R. N. Srivasava | Section Officer |

K. B. L. MITTAL, Secy.
(RAILWAY BOARD)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110 001, the 21st May 2009

No. A-19011/1/2004-Estt. (Vol. II)—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Malhotra, Under Secretary (CSL No. 4037) as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, in Pay Band 3 : Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 7600, w.e.f. 12.05.2009, consequent upon his inclusion in

the Selection Grade Select List of CSS for the year 2007 and posting in the Department of Shipping vide DoP&T Order No. 4/1/2009-CS.I(D) dated 08.05.2009.

A.M. VIJAYAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

New Delhi, the 19th May 2009

No. A-12025/2/2005-E.II—The President is pleased to appoint Shri Ghanshyam Kumar as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport and Highways, New Delhi, in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100/- with the grade pay of Rs. 5,400/- pm w.e.f. 18.05.2009 (F.N.) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 25th May 2009

No. 15/2009, File No. 3/6/2006-Estt. I—The President is pleased to appoint, on promotion, on regular basis, the following Sr. Time Scale officers of the Central Water Engineering (Group 'A') Service, to the Junior Administrative Grade of the same service in the pay scale of 14,300-18,300/- (Pre-revised) from the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the officer	Date of appointment to the grade
1	2	3
	S/Shri	
1.	D. Ranga Reddy	04.01.2008 (F.N.)
2.	Saibal Ghosh	23.01.2008 (F.N.)
3.	Ambrish Nayak	10.01.2008 (F.N.)
4.	Munni Lal	28.12.2007 (F.N.)
5.	Joginder Singh	31.01.2008 (F.N.)
6.	A. K. Pradhan	27.12.2007 (A.N.)
7.	Anupam Prasad	27.12.2007 (A.N.)
8.	B. B. Haldar	30.12.2007 (A.N.)
9.	P. S. Kutiyal	28.12.2007 (F.N.)
10.	L. K. Taneja	27.12.2007 (A.N.)
11.	R. L. Dutta	27.12.2007 (F.N.)
12.	Yogesh Paithankar	31.12.2007 (F.N.)
13.	N. K. Roy	28.12.2007 (F.N.)
14.	Aditya Sharma	28.12.2007 (F.N.)
15.	K. K. Rajan	04.01.2008 (F.N.)

1	2	3
16.	Sushil Kumar	28.12.2007 (F.N.)
17.	B. P. Pandey	03.09.2008 (F.N.)
18.	Neeraj Kumar	23.06.2008 (F.N.)
19.	D. K. Tiwari	31.01.2008 (F.N.)
20.	Ravinder Singh	28.12.2007 (F.N.)
21.	G. K. Aggarwal	04.01.2008 (F.N.)
22.	Vijay Saran	27.12.2007 (A.N.)
23.	B. K. Karjee	13.02.2008 (F.N.)
24.	Sher Singh	21.01.2008 (F.N.)
25.	Dinesh Verma	28.12.2007 (A.N.)
26.	Reading Shimray	27.12.2007 (F.N.)

2. The promotion of the above officers to the Junior Administrative Grade is subject to the final outcome of the following Court Cases :—

- (i) Writ petition filed in 2006 by Shri L. P. Singh & others Vs UOI & Others in High Court of Patna.
- (ii) O.A. No. 588/2006 filed by Shri Ravindra Singh before Hon'ble Central Administrative Tribunal, Allahabad Bench.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th May 2009

No. A. 32013/2/2007-TCPO/Admn.III/UD.II—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri M. L. Chotani, Town & Country Planner working as Additional Chief Planner on adhoc basis to the post of Additional Chief Planner on regular basis in the Pay Band-4 Rs. 37,400-67,000+Grade Pay Rs. 8,700/- (pre-revised scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) in Town and Country Planning Organisation with immediate effect till further orders.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

The 21st May 2009

No. A.32013/3/2008-TCPO/Admn.III/UD.II—Consequent upon promotion, the President is pleased to appoint Smt. Nilima Verma, Research Officer to the post of Senior Research Officer in the Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 6,600/- (pre-revised scale of Rs. 10,000-325-15,200/-) in Town and Country Planning Organisation w.e.f. the day she assumes the charge of the post till further orders.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

No. A.31013/2/2009-TCPO/Admn.III/UD.II—The President is pleased to appoint Shri A. P. Jacob Manohar, Associate Town and Country Planner in the Town and Country Planning Organisation substantively to the post of Associate Town & Country Planner on 28.06.2008.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 25th May 2009

No. A-12025/06/2006-ISH-II—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Deputy Director of Mines Safety (Electrical) in the pre-revised pay scale of

Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date shown against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of appointment to the grade of Deputy Director of Mines Safety (Electrical)
1.	Shri Ajay Singh	26/02/2009 (F/N)
2.	Shri Thammisetty Srinivas	30/03/2009 (F/N)

SUBHASH CHAND, Under Secy.